

# **ICRA** Limited

August 22, 2025

**BSE** Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai 400001, India Scrip Code: 532835 **National Stock Exchange of India Limited** 

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex

Bandra (East) Mumbai - 400051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

### Sub: - Intimation regarding Newspaper Publication

Please find enclosed copies of the notice to the shareholders of ICRA Limited (the "Company") regarding the 100 days Campaign – "Saksham Niveshak", published in the following newspapers on August 22, 2025:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

This information will also be hosted on the Company's website, viz., https://www.icra.in/

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Building No. 8, 2<sup>nd</sup> Floor, Tower A DLF Cyber City, Phase II Gurugram - 122002, Haryana

ugram - 122002, Haryana Helpdesk: +91.9354738909 Registered Office: B - 710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi - 110001. Tel.: +91.11.23357940-41

CIN: L74999DL1991PLC042749

Tel.: +91.124.4545300

: info@icraindia.com

Website : www.icra.in

Email

ाटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 फोन: 011-49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800, ईमेल: custon विसाइटः www.herohousingfinance.com; CIN: U65192DL2016PLC30148 संपर्क पताः अपर ग्राउंड फ्लोर, एसआरएस स्क्वायर, प्लॉट नं.-679-680, मोहन पार्क, दिल्ली रोड, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201204।

शुद्धिपत्र

शुद्धिपत्र इस समाचार पत्र में 21.08.2025 को गुरु वचन सिंह, विद्या (ऋण खाता सं HHFMODLAP23000044246, HHFMODLAP24000044966) के लिये प्रकाशित कब्जा सूचन के विज्ञापन के संदर्भ में है, जिसमें भौतिक कब्जा को गलती से प्रतीकात्मक बताया गया था, जबिक सही प्रका भौतिक है। बाकी सभी विवरण वही रहेंगे।

दिनांकः 22.08.2025, स्थानः गाजियाबाद हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

### अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः शॉप नं. 1 और 3, ई-14/6, पहली मंजिल शांता टावर, संजय प्लेस, आगरा–282002

फोन नं.: 0562&4060806; CIN:- L65910UP1993PLC070612ईमेल आईडी: nnainfra@gmail.com, वेबसाइट: www.annainfrastructures.com 33वीं' वार्षिक आम बैठक की सूचना

रतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी की 33वीं' वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार,17 सितंब 2025 को दोपहर 1:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 33वीं एजीएम दिनांक 13 अगस्त, 2025 की सूचना में बताए गए सामान्य और विशेष व्यवसायों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। उक्त नोटिस प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके पास पंजीकृत ई-मेल पता है। यह उपरोक्त उल्लिखित कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

#### वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण और वेबसाइट पर प्रसारः

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन शेयरधारकों / सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल कर दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी')/प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')

इसके साथ ही, कंपनी की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एजीएम की सूचना भी शामिल है, कंपनी की वेबसाइट www.annainfrastructures.com स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर तथा कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट beetal@beetalfinancial.com पर उपलब्ध है।

#### बही बंदी :

एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार 11/09/2025 से बुधवार 17/09/2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

## ई-वोटिंगः

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित लाग नियमों भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने शेयरधारकों / सदस्यों को एजीएम में होने वाले कार्यवाही के संबंध में एजीएम के दौरान **रिमोट ई-वोटिंग** और **ई-वोटिंग** के माध्यम से एजीएम से पहले ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए "सीडीएसएल ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म (यानी www.evotingindia.com)" नियुक्त किया है। ई-वोटिंग का विवरण नीचे दिया गया है:

जिस व्यक्ति का नाम कट—ऑफ तिथि यानी बुधवार 10/09/2025 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थ मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने

### रिमोट ई-वोटिंग

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 14 सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी और मं 16 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए **"सीडीएसएल ई-वोटिंग** प्लेटफॉर्म (यानी www.evotingindia.com) द्वारा ई—वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार 10/09/2025 को कंपनी की भुगतान

की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने पात्र होंगे और उनकी उपस्थिति कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑप तिथि यानी बुधवार 10/09/2025 को शेयर रखता है, वह 33वीं एजीएम की सूचना में

विवरणानुसार रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। हालाँकि, यदि शेयरधारक जो पहले से ही सीडीएसएल की ईजी / ईजीएस्ट सुविधा या एनएसडीएल की आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम

#### से लॉगिन कर सकते हैं। एजीएम में ई-वोटिंग

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के अलावा, सदस्यों को एजीएम में वोट करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नही डाला है, वे एजीएम में वोट करने के पात्र होंगे।

का पालन करने का अनुरोध किया जाता है:

जो शेयरधारक अपना ईमेल पता/मोबाइल नंबर पंजीकृत करना चाहते हैं उनसे निम्नलिखित निर्देशों

• इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए-अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए-कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी कंपनी की बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

# सम्पर्क करने का विवरणः

दिनांकः 20.08.2025

स्थान : आगरा

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत / प्रश्न / स्पष्टीकरण के लिए, शेयरधारक से अनुरोध है कि वे बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,शेयर रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) से टेलीफोन नंबर-011-29961281-84 पर संपर्क करें या आरटीए को beetal@beetalfinancial.com पर लिखें।

अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से अएशा जैन महाजन (कंपनी सचिव सदस्यता संख्याः एफ -9711



# **EPACK Durable Limited**

 B, Udyog Vihar, Surajpur Gautam Buddha Nagar U.P., 201306 Ph. No.: 0120-4522467. Website: www.epackdurable.com Email ID: info\_ed@epack.in

### PRE-DISPATCH – NOTICE OF 06<sup>TH</sup> ANNUAL **GENERAL MEETING OF THE COMPANY**

NOTICE is hereby given that the Sixth Annual General Meeting ("06th AGM") of EPACK Durable Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 16, 2025 at 11:00 A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the 06th AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("The Act") and the rules made thereunder read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020. followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other applicable circulars issued by the MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI LODR Regulations") the 06th AGM of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without the physical presence of the Members of the Company at a common venue.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 and the provisions of SEBI LODR Regulations, the Annual Report for the Financial Year 2024-25 ("Annual Report") along with the Notice of 06th AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s).

Remote e-voting facility ("remote e-voting") shall be provided to the members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the 06th AGM. Additionally, the Company is providing the facility of e-voting system during the 06th AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting /e-voting will be provided in the Notice of the 06th AGM. Members who have not registered their email addresses ("Non-Registered Members") are requested to refer the Notice of the 06th AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting and attending the 06th AGM. A letter containing web-link of the Notice of 06th AGM and Annual report shall be sent to non-registered members. Non-Registered Members are requested to register/update their email addresses with the Company Depository Participant (DP).

The Annual Report along with the Notice of 06th AGM will also be made available at the website of the Company at www.epackdurable.com websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://evoting.nsdl.com/. Members can attend and participate in the 06th AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Place: Noida

Date: August 21, 2025

By order of the Board of Directors For EPACK Durable Limited Sd/-

Jyoti Verma

देनांकः 22.08.2025

स्थानः दिल्ली / एनसीआर

Company Secretary and Compliance Officer FCS: F7210



आईसीआरए लिमिटेड

CIN: L74999DL1991PLC042749 पंजीकृत कार्यालय: बी-710, स्टेट्समैन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नं.: +91-11-23357940 वेबसाइट: www.icra.in ई-मेल आईडी: investors@icraindia.com

### शेयरधारकों के लिए सूचना

आईसीआरए लिमिटेड (जिसे ''**कंपनी**'' कहा गया है) के शेयरधारकों को सचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (''**आयईपीएफए**''), कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ''**एमसीए**'') के पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2025 के अनुसार, कंपनी ने 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर 2025 तक 100 दिनों का अभियान ''सक्षम निवेशक'' प्रारंभ किया है। इस अभियान के दौरान वे शेयरधारक जिन्होंने अपना लाभांश दावा नहीं किया है, या अपने केवाईसी एवं नामांकन विवरण अपडेट नहीं किए हैं, या अनक्लेम्ड लाभांश और शेयरों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे कंपनी या इसके रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (''**आरटीए**'') से संपर्क कर सकते हैं।

मेसर्स आईसीआरए लिमिटेड बिल्डिंग नं. 8, दूसरा तल, टॉवर-ए, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुडगांव-122002 फोन: +91 124 4545300 ई-मेलः investors@icraindia.com वेबसाईट: www.icra.in

मेसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लि. नोबल हाइटस. प्रथम तल. प्लॉट नं. एनएच-2. एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नजदीक सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 फोन: +91 11 49411000 ई-मेल: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com वेबसाईटः www.in.mpms.mufg.com

यह अभियान शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है ताकि वे अपने केवाईसी बैंक मांडेट, नामांकित व्यक्ति और संपर्क जानकारी को अपडेट करें तथा किसी भी अवैतित या अनक्लेम्ड लाभांश का दावा करें, ताकि उनके शेयर और लाभांश की राशि को ट्रांसफर होने से रोकी जा सके। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्रता से आवश्यक कार्रवाई करें ताकि उनके अनक्लेम्ड लाभांश और शेयर को ट्रांसफर न हों।

कृते आईसीआरए लिमिटेड (एस. शाकेब रहमान) कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 22 अगस्त, 2025

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266

प्राख्या कार्यालयः आदित्य विदला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यूनिट नं 710ए, 7या तल, कॉर्पोरेट पार्क, थी-109, संजय प्लेस, आगरा - 282002 एबीएचएफएल : अधिकृत प्राधिकारी : गणेज तिवारी - 8882384707
 जीलाबी सेवा प्रदाना (एएसपी) - भैससे ई-प्रोक्तीरिट टेक्नोलीजीज प्राइवेट तिबिवेड
 (ऑनजनटाइगर) श्री राव प्रमां - संपर्क नेबर १००००३३297 तथा 9285562819

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

तिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित विनीय आस्तियो के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्ति(यों) की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

तद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सुचना दी जाती है कि प्रतिभृत नेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों, जिस पर आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी हारा कच्जा कर लिया गया था, की विक्री आदित्य विरला ।।उसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के कर्जदारों नामतः मीना पत्नी राजू एवं देव कुमार की ओर वकाया . 1321815/- (रुपये तेरह लाख इक्कीस हजार आठ सी पंद्रह मात्र) एवं वसूली की तिथि तक भावी ब्याज खं उस पर अत्य व्ययों की वसूली के लिए ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है बही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 13.09.2025 को की जायेगी।

आरक्षित मूल्य र. 1400000/- (रुपए चीदह लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) राशि ह. 140000/- (रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र) जमा करने की अन्तिम तिथि 12.09.2025 तक या है। कथित राम्पत्ति का निरीक्षण करने की निर्धारित तिथि 11.09.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक है।

अचल सम्पत्ति का विवरण नॉट संख्या ४-ए, खसरा संख्या १०४, माप ६५ वर्ग गज वानी ५४.३४ वर्ग मीटर, मोहल्ला बसेरा बाग, दयाल बाग हरिपर्वत वार्ड, आगरा, बसेरा एस्टेट के पास, मौजा जगनपुर, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश-

१८२००१ पर आवासीय दो मंजिला संपत्ति का समस्त भाग। सीमाएँ: पूर्वः रास्ता वनिकाएँ 16 फीट चौड़ी, पश्चिमः अन्य का घर, उत्तरः प्लॉट संख्या 4-बी, दक्षिणः प्लॉट

बेक्की के विस्तृत नियम एवं शतों के लिए कपया आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभृत लेनदा की वेबसाइट अर्थात https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-

auction-under-sarfaesi-act और https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें। ह./- अधिकृत प्राधिकार्र आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तिथि : 22.08.2025 स्थान : आगरा



# मेटल कोर्टिग्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1994PLC063387 **पंजीकृत कार्यालयः** 912, हेमकुंट चेम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोन: +91-11-41808125, वेबसाइट: www.mcil.net, ईमेल: info@mcilindia.net

होयरधारकों को सूचना शेयरधारकों को एतहवारा सुवित किया जाता है कि सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एमओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी पी-ओडी / पी/सीआईआर / 2025 / 97 के अनुसार, सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले जमा किए गए और दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वीकृत/बापस किए गए मीतिक शेयरों के स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने की सुविधा के लिए एक विशेष विंडो खोलने की अनुमति दी है।

| पुनः- जमा करने की अवधि 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2025 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| कीन आवेदन कर सकता है?                                 | पहले जानक खानारिया विराध है।<br>पहले जाना किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजीं, प्रक्रियाः<br>से अस्वीकार/वापस कर दिया गया/उन पर ध्यान<br>= इसमें वे अनुरोध शामिल हैं जो सेबी परिपत्र–2 जुल<br>तक सूचीबद्ध कंपनी/आरटीए के पास लबित हैं। |  |  |  |  |
| स्थानांतरण अनुरोध पुनः कैसे दर्ज<br>करें ?            | और शेयर स्थानांत   | स्तावेज, संशोधित या छूटे हुए विवरणों के साथ, रजिस्ट्रार<br>ररण एजेंट, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड<br>ाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) |  |  |  |
|   | डाक पता  | यूनिटःसी १०१, दूतावास २४७,एल.बी.एस. मार्ग,<br>विक्रोली (पश्चिम), मुंबई — ४०००८३  |  |  |  |
|   | हेल्पलाइन नंबर   | 1149411000   |  |  |  |
|   | किसी भी प्रश्न के<br>लिए   | सेवा अनुरोध यहाँ दर्ज करें<br>https://web.in.mpms.mufg.com/<br>helpdesk/Service_Request.html अथवा<br>ईमेल rasharma@mcilindia.net, cs@mcilindia.net,                  |  |  |  |

: स्थानांतरण के लिए पुन: जमा की गई और अनुमोदित प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट मोड में जारी की जाएँगी इसके अलावा, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा जारी 16 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसरण में, कंपनी ने 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक 100-दिवसीय अभियान/अभियान — **"सन्नम निवेशक"** शुरू किया है। बुतान । इस अविष के दौरान, जिन शैयरबारकों के पास कोई दावा न किया गया, गैर भुगतान लागांश और, या आईईपीएफए को हस्तांतरित शैयर या संबंधित प्रश्न हैं, ये कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मेलः **delhi@in.mpms.mufg.com** / दूरभाषः 011—49411000

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट https://www.mcil.net/investors2.aspx?catid=18%20&subcatid=85 से केवाईसी अपडेशन फॉर्मे डाउनलोड करें और विधियत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म को सहायक केवाईसी दस्तावेजों के साथ आरटीए को

अधिक जानकारी के लिए, शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट www.mcil.net पर जा सकते हैं। कृते मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटे

विदुषी श्रीवास्तव कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 21 अगस्त, 2025

# हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पताः 09, सामुदायिक केंद्र, बंसत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 ..... राज एक, ताजुषाायक कद्र, बसत लाक, वसंत वि oroHousing शाखा पताः ए—6, तृतीय तल, सेक्टर—4, नोएडा—201301 Finance

## सार्वजनिक सूचना ( अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ९(१) के अंतर्गत) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरे हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभृति ऋणदाता) के पास बंचककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना

प्रारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), रिराधुर्तार जेनासाबारण का निवा निवास क्या निवास किया जाता है कि प्रतिमृति ऋणादाता के पास बंधककृत/प्रमारित निवा विकासिकारियों, प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिमृति ऋणादाता के पास बंधककृत/प्रमारित निवा विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाजसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिनृति ऋणवाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय 09–सितंबर–2025 (नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है" एवं "जैसी है जो है" और ''वहां जो कुछ भी हैं' आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर देय–भूग्ते बकाया राशियों की वसूती के लिए किया जाएगा। आरक्षित मुख्य तथा घरोहर राशि जमा का उठलेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ईं-नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी को बोली फॉर्म के साथ डिमांड इएप्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, जिसे हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को शाखा कार्यालयः ए-6, तृतीय तल, सेक्टर-4, नोएडा-201301 में 08-सितंबर-2025 को शाम

| 5 बज तक या उ                  | सस पहल जमा किया जाना  |   |   |                   |                  |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------|------------------|
| ऋण खाता<br>सं                 | उधारकर्ता(ओ)/सह—उधा<br>रकर्ता (ओ)/गारंटर(रो)/<br>विधिक<br>उत्तराधिकारी(यो)/<br>विधिक प्रतिनिधि के नाम | मांग सूचना<br>की तिथि<br>तिथि के<br>अनुसार राशि             | आधिपत्य का<br>प्रकार<br>(रचनात्मक /<br>भौतिक के<br>अंतर्गत) | आरक्षित<br>मूल्य  | धरोहर<br>राशि    |
| HHFDEL-<br>HOU<br>19000001774 | अमित सिंह<br>⁄सपना डबराल  | 26/12/2023<br>19/08/2025 के<br>अनुसार रु.<br>18.67.937.53/- | भौतिक   | रु.<br>8,00,000 ∕ | ₹.<br>80,000 / – |

संपत्ति का विवरण आवासीय कॉलोगी रेल विहार सहकारी समिति हिमिटेड, ग्राम साबुल्लाबाद एरगना और तहसील लोगी, जित गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रिशत यह पर्लेट प्लॉट संख्या—ए-60, खसरा संख्या 350 पर निर्मित आवासीय पर्लेट संख्या, एसएफ—एसएफिशला/दिशिणी मागोदायी और छत सहित(दूसरी मंजिल, एल.आई.जी), 40 वर्ग गज अर्थात 33.44 वर्ग मीटर व आकाशित को, जितमें एक गयनका, एक वैठक गोजन कह, एक गर्लेड पर्लेड पर्लेड पर्लेड प्लॉट संख्या ए-61, दक्षिण में प्लॉट संख्या ए-70, दक्षिण में प्लॉट संख्या ए-61, दक्षिण में प्लॉट संख्या ए-61, दक्षिण में प्लॉट संख्या ए-7

नियम एवं शर्तेः ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से 09-सितंबर-20 (ई-नीलामी तिथि) को पुर्वा.11.00 बजे के बाद 10 मिनट प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ होगी। (इ—नाताना तिराष्ट्र) को पुषानाऽध्य बज के बाद यो गन्दि अरपक के सामान तिरदार के साथ होगा। इच्छुक क्रेताओं नेबोलीदाताओं को ईएमडी राशि या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या "हीरे हाजिसेंग फाइनेंस तिमिटेंड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करनी होगी। ई—नीलामी के समापन के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। ई—नीलामी के नियम और शतैं: 1. ई—नीलामी "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ है के आधार पर" और "बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन" आयोजित किया पर जोर जो खुठ है के आवार पर जोर विचा पिता स्वित के आवार पर जानावार जे जानावार जो जो जा रही है। विचा प्राह्मवेट लिमिटेड, श्री वरणी कृष्णा—9948182222 (हिल्पलाइन नंबर: सपोर्ट लैंडलाइन नंबर, 124 4302020/2021/2022/2023/2024,सपोर्ट मोबाइल नंबरक, 917291981124/25/28 और ई-मेले के विवरण और संपत्ति के दौरे के लिए श्री इरशाद अली/ershad.ali@herohfl.com /880 8802270415 एवं शेखर सिंह / 9711522275/ shekhar.singh@herohfl.com पर संपर्क करें। 7 संगावित बोलीदाता पूर्व अपॉइटमेंट के साथ 02-सितंबर-2025 को सुबह 11.00 बजे से दोपह 200 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

अध्ययक्ततां/आरटर/बंधचककर्ता हेतु 15 विचक्रीय चिक्रय सूचला।
उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गरंटरगणों को एतद्वारा सुचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व
विधि के अनुसार नियत व्याज एवं व्यायों के साथ बारा 18(2) के अंतर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार सुल बकाया राशि
का गुगतान कर दें गुगतान करने ने विफल रक्ते गर संजीत की जीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, विदे
कोई निकतती है, की वसूली आपसे ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

काइ निकलता है, का बचूला बाधस ब्याज पुर लागत साहत का जाएगा। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं छतों के लिए कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमेटेड (प्रतिभूति ऋणदाता, की वैबसाइट अर्थात् www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero\_housing/other-notice का संदर्भ ग्रहण करें।

श्री शेखर सिंह,मोबाइल-971152227 ईमेलः shekhar.singh@herohfl.co

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिन्

allndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड Home Loans पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट — 15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002

वित्तीय जास्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) नियम 8(5) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन नियमावसी, 2002 (जिसे आगे "नियमावसी" कहा जाएगा) के नियम 8(6) के तहत अबल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूबना।

.सदहारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(सें). सह-कर्जदार(सें) तथा गारंटर(सें) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्ट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (इसमें आगे प्रत्याभूत लेनदार कही गई है) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अंघल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा प्रतिभृत लेनदार, पंजीकृत कार्यालर ता : छठा तल, प्लॉट – 15, इंस्टीट्यूशमल एरिया, सेक्टर-44, गुरुप्राम, हरियाणा-122002 और नीचे वर्णित शाखा कार्यालयों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए मीचे वर्णित तिथि को 'जैसी है जहां है', जैसी है जो है' तथा 'जो भी है वहां है' आधार पर

| ऋण खाता नंबर/   | धारा 13(2) के तहत मांग                      | कारता की तिथि और प्रकार                                      | सुरक्षित मृत्य                                       | सल्पति के निरीक्षण की तिथि एवं सलव                     |
|---|---|--|--|--|
| एपी नंबर और कर्जदार(रॉ) /सह-                                | सूबना की तिथि और राशि                       | सांकेतिक कथ्या व3-07-2025                                    | <ol> <li>10.63,000 / - (रूपये दस ताख</li> </ol>      | 24-09-2025<br>(निरोधम वा समय : पूर्व 10.00 बार्ड से    |
| कर्जदार(री) / गारंटर(री) का नाम<br>HL15AHLONS000005084992 / | 11-4-2025 एवं                               | कल जनावा   | विरंसठ हजार माव)                                     | अम १६०० वर्त एक  |
| AP-10204743 औं/औमती मुक्ता नागपाल                           | रः 11,41,665/-<br>(६पये ग्यास्ट लाख इकतालील | रू. 11.41.685 / – (रूपये गाएड लाख<br>इकतालीस हजार छह सी पैसठ | धरोहर राशि जमा (ईएमडी)                               | इंश्नडी जमा भी अंतिम तिथि<br>25-00-2026                |
| एवं श्री/श्रीमती विक्की                                     | हजार छह सी पैसट मात्र)                      | मात्र) 10-4-2025 तक तथा                                      | संका र 1,06,300/-(रूपमें एक लाख छह   मैलामे की लिए छ | नीलामी जी रिविंग एवं समय 26-08-2025                    |
|   | बोली यृद्धि चरित<br>10,000 /—               | 11-4-2025 से आगे व्याज                                       | हजार तीन सी माञ)                                     | (मीलामी समय: पूर्व: 10.00 वर्ग से अव<br>05.00 वर्ग तक) |

अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : नरेंद्र होम्स के भूतल पर फ्लैट संख्या 117-ए, चक 3आरटीपी, एस. संख्या 188/188, किला संव 11, 20, 21, पुरुबा संख्या 47, तहसील संगरिया हनुमानगढ़ राजस्थान। क्षेत्रफल परिमाप लगभग:— कार्यट एरिया 497 वर्ग कीट, निर्मित क्षेत्रफल 550 वर्ग फीट, और सुपर निर्मित क्षेत्रफल 606 वर्ग फीट, सीमा:- पूर्व-30 फीट रोड, पश्चिम- फ्लैट नंबर 112-ए, उत्तर-फ्लैट नंबर 118-ए दक्षिण-फ्लैट नंबर 118-ए

इंएमडी जमा करने का ख्यान तथा नीलामी का ख्यान : प्रथम तल, बालाजी कॉम्प्लेक्स, बंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड, बस स्टैंड के सामने, बाबा श्याम रिंह कॉलोमी, हनुमानगढ़, राजस्थान 335512 भुगतान की विवि :- सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।

| ऋण खाता नंबर/   | बारा 13(2) के तहत मांग सूचना की                              | कब्जा की तिथि और प्रकार                                     | सुरक्षित मूल्य                                  | सम्पति सं निरीक्षण सी तिथि एवं शतव                                |  |
|---|--|---|---|---|--|
| एपी नंबर और कर्जदार(रों) /सह-<br>कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम | तिथि और चरि  | भौतिक कन्जा 28-03-2025                                      | ₹. 86,00,000/-                                  | 24-09-2025<br>इनिरोधण का समय : पूर्वी 10:00 बजे से                |  |
|   | 08-08-2022 एवं ₹ 50,58,589                                   | कल बकावा  | (सपये फियासी लाख मात्र)                         | अप. 05.00 माने ताक  |  |
| LA30CLLONS000005013947/<br>AP10036942 에버리 अन्यू शर्मा एवं 에       | 41/-(रुपये प्रमास लाख अद्यायन<br>इजार पांच सौ नवासी तथा पैसे | 08-08-2022 रू. 50,58,589<br>41/-(रूपये प्रचाश लाख अंतरावन   | धरोहर राशि जमा (ईएमडी)                          | हंश्मरी प्रमा वी अतिम विशेष<br>25-09-2025                         |  |
| शंकर लाल शर्मा एवं सत्य नारायण शर्मा एवं                          | इकतालीस मात्र)   | हजार पांच सी नवासी तथा पैसे                                 |   | नीतानी और विवि एवं समय  |  |
| सुमन शर्मा  | बोली वृद्धि शशि  | इकतालीस मात्र) 09-08-2022 तक<br>तथा 10-08-2822 से आगे ब्याज | रु. 8,60,090 / ~(शपये आत लाख<br>साठ हजार भात्र) | 26-09-2026 (मीलमी तामत पूर्वा: 10:00<br>बंधे से अप 05:00 बंधे तब) |  |
|   | 10.000/-   | एवं प्रभार  |   | 10 200  |  |

अचल सम्पत्ति / प्रतिभृत आरित का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट, पट्टा संख्या 08, ग्राम पंचायत कनोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल परिमा प्रसाद की भूमि और मकान, पश्चिम—आम रास्ता रोज, उत्तर— रामेश्वर और देवबख्श की भूमि, दक्षिण— श्री जगदीश और बेनी प्रसाद की भूमि

ईएमडी जमा करने का स्थान तथा मीलामी का स्थान : युकान नंबर 67/बी और 68, द्वितीय तल, पी नंबर 277, अजमेर रोड, टैगोर नगर, जयपुर - 302021 भुगतान की विधि -- सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेंड के पक्ष में डिमांड ब्रापट/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया ज ऋण खाता नंबर/ धारा 13(2) के तहरा मांग सूचना की करूना की तिथि और प्रकार तिथि और राशि सुरवित मूल्य सामाणि के निरोधना की तिथि एवं जानक 34-09-2025 (निरीधना का समय पूर्वा 10.02 बजे से अग्र 15.00 बजे तक एपी नंबर और कर्जदार(रों) /सह- 41.06,800/— (समये इकतालीस लाख । हजार आठ सी मार्च) सांकेलिक कच्चा 04-07-2025 कर्जदार(रॉ) / गारंटर(रॉ) का नाम कुल बकाया 11-04-2025 के 1720,184 96/-(रुपये सज्ज्ञ लाख बीस इजार एक सी जीरासी तथा पैसे क्रियानचे LA30CLLONS000005013947/ हरमबी जना की अंतिय दिश्वि AP-10036942 एक सी चीरासी तथा पैसे क्रियानमें धरोहर राशि जना (ईएमडी) श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा एवं कुलवंत शर्मा एवं शहुल शर्मा 25-09-2025 नीलानी की तिथि एवं समय HES) रु. 4,10,680 / - (रूपदे चार लाख दस हजार छह सौ अस्सी मात)

अचल सम्पत्ति / प्रतिमृत आहित का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट संख्या 21 ए, श्रीता विहार, केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान 302026 क्षेत्रफल लगभग 109.58 वर्ग गज संपत्ति की सीमाएँ: पूर्व-रोड, उत्तर-प्लॉट संख्या 21 पश्चिम-अन्य भूमि, दक्षिण-प्लॉट संख्या 22

ईएमडी जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान : युकान नंबर 67/बी और 68, डितीय तल, पी नंबर 277, अजमेर रोड, टैगोर नगर, जयपुर – 302021 भुगतान की विधि – सभी मुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्फोरेशन लिमिटेड के एक में डिमांड ड्रायट/आरटीजीएस/एनईएफटी हाथ किया जाएगा।

नोटः ऋण खाता (LA30CLLONS000005013947/AP10036942) में बंघक संपत्ति के संबंध में, मामले डीआरटी, जयपुर के समझ वाद संख्या एसए/507/2025 और एसए/328/2023 के तहत लंबित हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनवार की वेबसाइट www.indiashelter.in देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें श्री विनय (+91 7988605030) वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड तिथि : 22-08-2025 स्थान : राजस्थान

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 501, साल्कन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली– 110025 तथा शाखा कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ नीलामी सह विक्रय सूचना की सार्वजनिक सूचना

### परिशिष्ट—IV—ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ खुली नीलामी विक्रय सूचना। एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत 🖊 प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक अधिग्रहण षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिमृत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय 12 सितंबर 2025 को ''जैसी हैं जहाँ हैं'', ''जैसी हैं जो हैं'' तथा ''वहाँ जो कुछ भी हैं आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, 1. श्री अमित कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार (उधारकर्ता) निवासी प्लॉट सं. 16 व 17, वृद्ध आश्रम के पास, गाँव नूर नगर, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 2. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार (सह-उधारकर्ता) निवासी प्लॉट सं. 16 और 17, वृद्ध आश्रम के पास, गाँव नूर नगर, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 3. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री अनिल कुमार (गारंटर / बंधककर्ता) निवासी प्लॉट सं. 16 और 17, वृद्ध आश्रम के पास, गाँव नूर नगर, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 4. श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री राजेंद्र कुमार (गारंटर) निवासी 1257/1, माधव पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 5. श्री रोहित जैन पुत्र सतीश कुमार (गारंटर) निवासी मकान संख्या 643, पसवाड़ा हाउस के सामने, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002 की ओर से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड प्रतिभृत ऋणदाता को देय-भुग्तेय 21-08-2024 के अनुसार रु. 1,21,000/- (रुपये एक लाख इक्कीस हजार मात्र) की एक राशि तथा उक्ताविध के पश्चात् राशि पर नियत ब्याज व शुल्कों की वसूली करने हेतु किया जायेगा।

आरक्षित मुल्य रु. 15.88.000 / – (रुपये पंद्रह लाख अद्रासी हजार मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा. बोली राशि की 10 प्रतिशत अर्थात रु. 1.58.800 / – (रुपये एक लाख अड्डावन हजार आठ सौ मात्र) होगी। बाद की राशि 11–09–2025 को सायं 5 बजे तक अथवा इस से पूर्व बैंक में जमा की जानी है, जिसके विवरण यहाँ इसमें नीचे दिये गये हैं :-

| उधारकर्ता(ओं) ∕गारंटर(रों) के नाम   | माँग सूचना तिथि<br>तथा माँग सूचना के<br>अनुसार बकाया राषि         | अचल संपत्तियों<br>का विवरण   | आरक्षित<br>मूल्य | धरोहर<br>राषि जमा<br>(धराज)  |
|---|---|--|------------------|--|
| 1. श्री अमित कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार (उघारकर्ता) निवासी प्लॉट सं. 16 व 17, वृद्ध आश्रम के पास, गाँव नूर नगर, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 2. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार (सह—उघारकर्ता) निवासी प्लॉट सं. 16 और 17, वृद्ध आश्रम के पास, गाँव नूर नगर, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 3. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री अनिल कुमार (गारंटर / बंधककर्ता) निवासी प्लॉट सं. 16 और 17, वृद्ध आश्रम के पास, गाँव नूर नगर, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 4. श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री राजेंद्र कुमार (गारंटर) निवासी 1257/1, माधव पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002, 5. श्री रोहित जैन पुत्र सतीश कुमार (गारंटर) निवासी मकान संख्या 643, पसवाझ हाउस के सामने, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002 (ऋण खाता संख्या : 100841004598, 100846511094) | 21-08-2024<br>रु. 1,21,000/-<br>(रुपये एक लाख इकीस<br>हजार मात्र) | अचल संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश  —: जिसका पता है— आवासीय संपत्ति, जो प्लॉट संख्या 16 व 17 के भाग पर, माप 92.04 वर्ग मीटर, श्री राम कॉलोनी, ग्राम नूर नगर, दिल्ली रोड, भेरठ, उत्तर प्रदेश में खसरा संख्या 69 एमआई, के भाग पर स्थित, राजस्व अभिलेखों में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7583, एष्ठ संख्या 121—144 के क्रमांक 3489 पर दिनांक 16—03—2012 को श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री अनिल कुमार के नाम पर पंजीकृत। | अहासी            | आरबित<br>मूल्य का<br>10%<br>अर्थात्<br>5. 1,58,800/<br>— (रुपये<br>एक लाख<br>अद्वादन<br>हजार आठ<br>सौ मात्र) |

ाल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि : 10 सितंबर 2025 को, 11.00 बजे — 15.00 बजे बोली खोलने की नीलामी तिथि एवं समय : 12 सितंबर 2025 को, 10.00 से 12.00 बजे प्रस्तावों 🖊 धराज को जमा करने की अंतिम तिथि : 11 सितंबर 2025 को 5.00 बजे तक

https://shivalikbank.com/auction\_of\_bank\_properties.php में उपलब्ध कराये गये लिंक का संदर्भ ग्रहण करें। विक्रय के महत्त्वपर्ण नियम तथा शर्ते : (f) संपत्ति का विक्रय "जेंसी हैं जहाँ हैं, वहाँ जो कुछ भी हैं तथा बिना संसाधनगत वसूली" के आधार पर किया जा रहा है क्योंकि ऐसा विक्रय किसी भी आश्वासन एवं क्षतिपूर्ति

के है। 🖊 प्रलेखों का निरीक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के साथ ऊपर दी गई तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।

(3) विक्रम के समस्त सामान्य नियमों तथा शतों से समानिष्टर बीली प्रतेख / प्राप्त यहाँ इसमें ऊपर वर्णित बैंक के सामस्त सामान्य नियमों तथा शतों से समानिष्टर बीली प्रतेख / प्राप्त यहाँ इसमें ऊपर वर्णित बैंक के शाखा कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित बोली प्रपत्र पर अपनी मोहरबंद बोलियां बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजनी होंगी। मोहरबंद लिफाफें में जमा की जानेवाली बोली में, नीलामी संपत्ति हेतु बोली का उल्लेख किया गया हो तथा बोली, धराज (बोली राषि की 10 प्रतिषत के

"षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आहरित एवं मेरठ / नोएडा में मुन्तेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संलग्न कर 11 सितंबर 2025 को 5.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व बैंक के ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी। बोलियां जो भरी नहीं गई होंगी अथवा अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त की गई बोलियां अवैध मानी जाएंगी तथा उन्हें तदनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। धराज पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर दिये जाने पर उसे वापर

(5) मोहरबंद बोलियां 12 सितंबर 2025 को 10,00 बजे - 12,00 बजे बैंक के उक्त वर्णित शाखा कार्यालय में उस समय उपस्थित रहनेवाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी तथा उसके पष्चात योग्य बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर, प्रस्तावगत मुल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक बोलीदान में भागीदारी करने का एक अवसर प्रदान किया जा सकता है।

जमा किया जानेवाला बोली मुल्य, आरक्षित मुल्य से अधिक होगा तथा बोलीदाता को आगे रु. 50,000 / – के गणक में अपने प्रस्ताव को बढाना होगा। सम्पत्ति को प्राधिक अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मृत्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। सफल बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह विक्रय मृत्य की 25 प्रतिषत रकम (धराज सहित) का जमा भुगतान तत्काल अधिकतम अगले कार्यदिवस तक पिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित मेरठ / नोएडा में भुग्तेय डिमांड ड्रापट द्वारा करें तथा विक्रय मृत्य की शेष राषि का भुगतान सफल बोलीदाता को, बैंक द्वारा

विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15 दिवसों के अंदर, करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई धराज और विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता विक्रय के नियमों का पालन नहीं करता है अथवा कोई चुक करता है, तो धराज की जमा अथवा इसका 25 प्रतिषत, जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा जब्त

(8) बैंक जो है वह प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में, किसी प्राधिकरण से अथवा लागूरत् किसी अन्य विधि के अंतर्गत, किसी अनुमति / एनओसी अथवा किसी अन्य देयराषि अर्थात् कागा जल / विद्युत देवताएं, सम्पत्ति कर, नारपालिका / पंचायत कर या अन्य प्रभार, यदि कोई, की अधिप्राप्ति का कोई उत्तरदायित नहीं लेता।

(9) सफल बोलीदाता जो है वो किसी विकास प्राधिकरण की बकाया देयराषियाँ, यदि कोई, /नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को भुग्तेय कर/यूटिलिटी बिल

तथा 'विक्रय प्रमाणपत्र' के पंजीकरण हेतु स्टांप शुक्क /पंजीकरण शुक्क इत्यादि मुगतानयांग्य शुक्को सहित समस्त व्ययों के भुगतान वहन करेगा।
(10) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा समस्त प्रस्तावों /बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय को स्थिगित /निरस्त करने या किसी

किसी पूर्व सूचना के बिना ही विक्रय के किसी नियम को संबोधित करने का पूर्णाधिकार तथा विवेकाधिकार सुरक्षित है।

(11) एक बार बोलियों को लगाने के बाद उन्हें निरस्त अथवा वापस नहीं किया जा सकेगा। (11) एक बार बातिया को लगान के बाद उन्हें ानरस्त अबया वापस नहा किया जा सकगा।
(12) अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार बँक, बँक को छोड़कर, विक्रय की जानेवाली सम्पत्ति पर किसी भारग्रस्ता के बारे में अवगत नहीं है। इच्छुक पक्षकारों को अपनी
संतुष्टि के अनुसार सम्पत्ति पर अपना स्वयं का आकलन कर लेना चाहिए। बँक किसी भी प्रकार से उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्ता / हकदारी के संबंध में गारंटी नहीं देता
अथवा कोई अमिवेदन प्रकट नहीं करता। किसी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को, उपर्युक्त सम्पत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी व्यक्ति को देय किसी
प्रभार, धारणाधिकार, भारग्रस्तता, सम्पत्ति कर अथवा किसी अन्य देय के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। एतद्द्वारा उधारकर्ता(ऑ) / बंधककर्ता(ऑ) / गारंटर(रॉ) को सुचित किया जाता है कि वे विक्रय कार्यवाही के समय पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहें तथा वे विक्रय के नियमों एवं शर्तों के विवरणों के अनुसार यहाँ इसमें ऊपर विवरणितानुसार अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए इच्छुक क्रेताओं / खरीददारों को अपने साथ ला सकते हैं।

(13) अचल संपत्ति का विक्रय सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास, यदि वे अनिवार्य समझते हैं, परस्पर बोलीदान की अनुमति प्रदान करने व पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है।

(14) बैंक बैंक की जानकारी से बाहर की संपत्ति पर निर्धारित किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(15) उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतदृद्वारा प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत अचल प्रतिमृत परिसंपत्तियों की 15 दिवसीय विक्रय सूचना दी जाती है कि वे समाचारपत्र के क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित इस सूचना की तिथि से 15 दिवसों के अंदर अद्यतन ब्याज एवं व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराषियों व अपनी देयताओं का पूर्ण भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने की रिथति में प्रतिभूत परिसंपत्ति को ऊपर वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार बेच दिया जायेगा। यदि यहाँ अंग्रेजी एवं देषी भाषा के समाचार-पत्रों में विक्रय सूचना के प्रकाषनों के मध्य कोई अंतर होता है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार-पत्र देषी भाषा के समाचार-पत्र का अधिक्रमण करेगा तथा इसे ही अंतिम प्रति के रूप में माना-विचारा जाएगा, इस प्रकार प्रकाषन अस्पष्टता दूर होगी। यदि उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता, बैंक को देय राषि का विक्रय की तिथि से पूर्व पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो नीलामी को रोक दिया जायेगा हालांकि ऐसी रिथतियों में, सूचना में बकाया राषि पर ऋण प्रलेखानुसार, राषि के वसूल होने तक देय एवं भुगतानयोग्य भावी ब्याज, आकरिमक व्यय, लागत, इत्यादि लागू अनसार प्रभारित होंगे।

(16) प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं प्रश्नातीत है। बोली जमा कर चुके सभी बोलीदाताओं के बारे में यह माना जायेगा कि उन्होंने नीलामी विक्रय के नियमों एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा वे उन पर बाध्यकारी हैं।

विवरणों, सहायता, प्रक्रिया एवं बोलीदान के लिये प्रस्तावित बोलीदातागण श्री जगबीर, संपर्क नं. 9045002318 से संपर्क कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूत ऋणदाता, बैंक सभी उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को उनके पतों पर डाक द्वारा विक्रय सूचना निर्गत करने जा रहे हैं। यदि यह सूचना किसी भी पक्ष द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो विक्रय सूचना के इस प्रकाशन को सूचना-प्राप्ति के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जा सकता है। उधारकर्ता / सह-उधारकर्तागण / गारंटरगण / बंधककर्तागण को भी एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि उन्हें इस प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर पूर्व अनुमति के साथ उपरोक्त परिसरों के अंदर / बैंक की अभिरक्षा में पड़े अपने घरेलू सामानों, यदि कोई हो, की सुपुर्दगी अवश्य लेनी होगी। ऐसा न करने पर बैंक का उन सामानों के में कोई उत्तरदायित्व / जवाबदेही नहीं होगी और वह उधारकर्ता / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं के जोखिम पर उनका निस्तारण करेगा और इनके विक्रय होनेवाली आय को बकाया राशि में समायोजित करेगा।

यदि किसी भी कारण चाहे जो कछ भी हो से नीलामी विफल हो जाती है तो कंपनी सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिदेशित प्रावधानों के अनसार निजी संधि के माध्यम से उपरोक्त बंधककृत संप तियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगी। प्राधिकत अधिकारी, षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनाँक : 19-08-2025. स्थान : नोएडा



l arrive at a conclusion not an assumption.

---- NOLIKYALISM OF CREIKNCE-

indianexpress.com

Inform your opinion detailed analysis.

epaper ansalla.com

#### ....Continue From Previous Page

- (1) Revenue from operation means revenue from Revenue from Sale of Work contracts.
- (2) EBITDA is calculated as Profit Before tax + Depreciation + Finance Costs Other Income + Other non-operating expenses.
- (3) EBITDA Margin is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations.
- (4) PAT Margin is calculated as PAT for the period / year divided by revenue from operations.
   (5) Return on Equity is calculated by Profit for the year (after current Tax only) less Preference dividend
- (if any) divided by average total equity. (6) Return on Capital Employed is calculated as EBIT divided by capital employed, which is defined as
- Shareholders Fund + Long term borrowing + Deferred Tax Liability. (7) Net worth is calculated as Total Assets less Total Liabilities

# industry peers:

### 1. Ganesh Green Energy Limited

| Key Financial Performance   | FY 2024-25 | FY 2023-24 | FY 2022-23 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Revenue from Operations (1) | 31752.00   | 17017.02   | 9019.91    |
| EBIDTA (2)                  | 4741.72    | 3531.65    | 1395.73    |
| EBIDTA Margin (%)           | 14.93      | 20.75%     | 15.47%     |
| PAT 10                      | 3022.25    | 2,182.98   | 815.57     |
| PAT Margin (%) 49           | 9.52%      | 12.82%     | 9.04%      |

- Set Forth below are the details of comparison of key performance of indicators with our listed | (1) Revenue from Operations means the Revenue from Operations as appearing in the Restated Financial Statements / Annual Reports of the respected company.
  - (2) EBITDA is calculated as Profit before tax + Depreciation + Finance Cost Other Income + Other Non-Operative Expenses.
  - (3) 'EBITDA Margin' is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations
  - (4) Profit After Tax (PAT) Means Profit for the period / year as appearing in the Restated Financial Statements / Annual Reports of the respected company. (5) 'PAT Margin' is calculated as PAT for the period / year divided by revenue from operations.
  - For Further Details Please Refer to the Section "Basis of Issue Price" beginning on the page 90 of this Red Herring Prospectus

#### Weighted Average Cost of Acquisition:

a. The price per share of our Company based on the primary / new issue of shares (equity / convertible securities): There has been no issuance of Equity Shares during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus (Except Bonus Issue of Shares), where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days

| Date of<br>Allotments | Name of<br>Allotees | No. of securities | Nature of<br>Securities | Face value of securities (₹) | Price Per<br>securities (₹) | Nature<br>of transaction |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sept 30,2024          | Priti Shah          | 64,99,986         | Equity Shares           | 10.00                        | 1041                        | Bonus Issue              |
| Sept 30,2024          | Kapil dev Marwah    | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 2000                        | Bonus Issue              |
| Sept 30,2024          | Inder Kumar         | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 1320                        | Bonus Issue              |
| Sept 30,2024          | Anmol Ratan Gautam  | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 328                         | Bonus Issue              |
| Sept 30,2024          | Nitin Kumar         | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 700                         | Bonus Issue              |
| Sept 30,2024          | Abid Ali            | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | ((e)                        | Bonus Issue              |
| Sept 30,2024          | Ankur Sharma        | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 858                         | Bonus Issue              |
| Sept 30,2024          | Puja Kumari         | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 140                         | Bonus Issue              |
| Feb 23, 2024          | Priti Shah          | 64,99,986         | Equity Shares           | 10.00                        | 537.5                       | Bonus Issue              |
| Feb 23, 2024          | Kapil dev Marwah    | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 1723                        | Bonus Issue              |
| Feb 23, 2024          | Inder Kumar         | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | (*)                         | Bonus Issue              |
| Feb 23, 2024          | Anmol Ratan Gautam  | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | •                           | Bonus Issue              |
| Feb 23, 2024          | Nitin Kumar         | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | (#I                         | Bonus Issue              |
| Feb 23, 2024          | Abid Ali            | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 272                         | Bonus Issue              |
| Feb 23, 2024          | Ankur Sharma        | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | fait                        | Bonus Issue              |
| Feb 23, 2024          | Puja Kumari         | 2                 | Equity Shares           | 10.00                        | 0.00                        | Bonus Issue              |
| Nov 02, 2022          | Priti Shah          | 30,00,000         | Equity Shares           | 10.00                        | 10.00                       | Right Issue              |

b. The price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of shares (equity shares): There details of secondary sale / acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days

| Date of<br>Allotments | Name of<br>Transferor | Name of Allotees   | No. of securities | Nature of<br>securities | Face value of securities (₹) | Price Per<br>security (₹) | Nature of<br>transaction |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Jan 09, 2024          | Priti Shah            | Inder Kumar        | 01                | Equity Shares           | 10.00                        | 35.00                     | Transfer                 |
| Jan 09, 2024          | Priti Shah            | Anmol Ratan Gautam | 01                | Equity Shares           | 10.00                        | 35.00                     | Transfer                 |
| Jan 09, 2024          | Priti Shah            | Nitin Kumar        | 01                | Equity Shares           | 10.00                        | 35.00                     | Transfer                 |
| Jan 09, 2024          | Priti Shah            | Abid Ali           | 01                | Equity Shares           | 10.00                        | 35.00                     | Transfer                 |
| Jan 09, 2024          | Priti Shah            | Ankur Sharma       | 01                | Equity Shares           | 10.00                        | 35.00                     | Transfer                 |
| Jan 09, 2024          | Priti Shah            | Puja Kumari        | 01                | Equity Shares           | 10.00                        | 35.00                     | Transfer                 |

- c. Except as disclosed Above, there have been no primary / Secondary transactions by the Promoters, members of the Promoter Group, having the right to nominate director(s) in the Board of Directors of our Company are a party to the transaction, in the last three years preceding the date of this Red Herring
- d. Weighted average cost of acquisition on issue price

| Type of Transactions  | Weighted Average cost of<br>Acquisition (₹ per Equity Shares) |
|---|---|
| Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per paragraph a above.           |   |
| Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition as per paragraph b above. | en.   |

| Type of Transactions   | Weighted Average cost of<br>Acquisition (₹ per Equity Shares) |
|--|---|
| Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions<br>as per paragraph 8 (c) above | 30 000 00 00  |
| - Primary Transactions   | 10.00   |
| - Secondary Transactions   | 35.00   |

The Basis of Issue price on page 90 of the offer document will be updated with the above price band. You can scan the QR code give on the first page of the advertisement and refer chapter titled Basis of Issue price on page 90 of the offer document.

#### INDICATIVE TIMELINE FOR THE ISSUE

| Event   | Indicative Dates   |
|---|--------------------|
| Anchar Investor Portion Offer opens / close   | August 28, 2025    |
| Bid / Issue Opening Date  | August 29, 2025    |
| Bid / Issue Closing Date  | September 02, 2025 |
| Finalisation of the Basis of Allotment with the stock Exchange (T+1)                                | September 03, 2025 |
| Initiation of Allotment / Refunds Unblocking of Funds from ASBA or UPI Id Linked Bank Account (T+2) | September 04, 2025 |
| Credit of Equity Shares to Demat Account of Allottees (T+2)   | September 04, 2025 |
| Commencement of trading of the Equity Shares on the stock Exchange (T+3)                            | September 05, 2025 |

Note: Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager, may consider participation by Anchor Investors in Accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid / Issue Period shall be one working day prior to the Bid Issue opening date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

### CONTENTS OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS

For Information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on Page 167 of the Red Herring Prospectus. The Memorandum of Association of our Company is the material document for inspection in relation to the issue. For Further Details, see the section "Material Contracts and Document for Inspection" on Page 347 of the Red Herring Prospectus.

### LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY

Limited by Shares

### AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE

The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 25,00,00,000 divided into 2,50,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each. The Issued, Subscribed and paid up share capital of the Company before the issue is 16,25,00,000/- divided into 1,62,50,000 Equity shares of Rs. 10/- each .For Further Details refer to the section "Capital Structure" beginning on page 70 of the Red Herring Prospectus.

## DISCLAIMER CAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI")

It is to be distinctly understood that submission of draft red herring prospectus red herring prospectus to securities and exchange board of India (SEBI) should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. SEBI does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme or the project for which the issue is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the draft red herring prospectus red herring prospectus, the lead merchant banker. 3 dimension capital services limited has certified that the disclosures made in the draft red herring prospectus, red herring prospectus are generally adequate and are in conformity with SEBI (issue of capital and disclosure requirements) regulations, 2018 in force for the time being, this requirement is to facilitate investors to take an informed decision for making an investment in the proposed issue. It should also be clearly understood that while the company are primarily responsible for the correctness, adequacy and disclosure of all relevant information in the draft red herring prospectus red herring prospectus, the lead merchant banker is expected to exercise due diligence to ensure that the company discharges its responsibility adequately in this behalf and towards this purpose, the lead merchant banker, 3dimension capital services limited have furnished to SEBI, a due diligence certificate dated August 21, 2025 the filing of the draft red herring prospectus red herring prospectus does not, however, absolve our company from any liabilities under the companies act, 2013 or from the requirement of obtaining such statutory and other clearances as may be required for the purpose of the proposed issue, sebi further reserves the right to take up at any point of time, with the book running lead manager any irregularities or lapses in the draft red herring prospectus red herring prospectus.

## DISCALIMER CLAUSE OF THE BSE

**REGISTRAR TO THE ISSUE** 

Address: Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032,

Investors Grievance Id: einward.ris@kfintech.com

As required, a copy of this Offer Document has been submitted to BSE Limited (hereinafter referred to as BSE). BSE has given vide its letter Ref.: LO/SME-IPO/RN/IP/48/2025-2 dated May 09, 2025 permission to the Issuer to use the Exchange's name in this Offer Document as one of the stock exchanges on which this Issuer's securities are proposed to be listed. The Exchange has scrutinized this draft red herring prospectus Red Herring Prospectus for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this Issuer. It is to be distinctly understood that the aforesaid permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by BSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of this offer document; nor does it warrant that this Issuer's securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Issuer, its promoters, its management or any scheme or project of Issue.

**COMPLIANCE OFFICER** 

nvestors can contact the company secretary and compliance officer or

the LM or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue related

problems, such as non-receipt of letter of offer, non-credit of allotted

equity shares in the respective beneficiary account and refund orders

Address: Office No. 8B, CSC-I Mandawali, Fazalpur

Ms. Nimmy Singh Chauhan

Behind Narwana Apartments New Delhi, Delhi-110 092 Tel. No.: +91-9599194186 E-mail: compliance@sugslloyds.com

Website: www.sugslloyds.com

# **LEAD MANAGER TO THE ISSUE**



#### 3DIMENSION CAPITAL SERVICES LIMITED SEBI Registration Number: INM000012528

Address: K-37A, Basement, Kailash Colony, Near Kailash Colony, Metro Station, New Delhi-110 048. Telephone Number: +91-11-40196737;

Email Id: info@3dcsl.com Investors Grievance Id: grievance@3dcsl.com Website: www.3dcsl.com

Contact Person: Mr. Pankaj Khetan and Mr. Rhydham Kapoor

CIN: U65923DL2001PLC113191

Credit Rating: As this is an issue of Equity Shares, there is no credit rating for this Issue.

Debenture Trustees: As this is an issue of Equity Shares, appointment of Debenture Trustees is not required.

IPO Grading: Since the issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

Basis of Issue Price: The Issue Price: The Issue Price is determined by Company in consultation with the Book Running Lead Manager. The financial data presented in section titled "Basis for Issue Price" on page No. 90 of the Red Herring Prospectus is based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the sections / chapters titled "Risk Factors" and "Restated Financial Information" on Page No. 28 and 196 respectively of the Prospectus to get more informed view before making the investment decision.

Toll Free No.: 1800 309 4001

Contact Person: Mr. M. Murali Krishna

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

Tel. Number: +91 40 6716 2222;

Email Id: sugs.ipo@kfintech.com

CIN: L72400TG2017PLC117649

Website: www.kfintech.com

Telangana, India.

SEBI Registration Number: INR000000221

Risk to Investors: Investments in equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 28 of the Prospectus.

Application Forms may be obtained from the Registered Office of our Company i.e. "Sugs Lloyd Limited", the Book Running Lead Manager to the Issue i.e. "Kfin Technologies Limited". The application forms may also be downloaded from the website of BSE SME, www.bseindia.com. Application supported by Block Amount forms shall be available with designated branches of Self Certified Syndicate Banks, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

Availability of Prospectus: Investors are advised to refer to the Prospectus, and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue (www.3dcsl.com) and on the website of BSE SME i. e. www.bseindia.com. Investor should note that investment in equity shares involves high degree of risk. For details, investor should refer to and rely on the prospectus, including the section titled "Risk Factor" on page No. 28 of the prospectus, which has been filed with RoC

Applications Supported By Blocked Amount (ASBA): Investors may apply through the ASBA process. ASBA can be availed by all the investors are mandatorily required to participate in the Issue through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process. The Investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their Banks which, in turn will block the amount in the account as per the specified procedure. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the list of banks that is available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For more details on ASBA process, please refer to details given in application forms and abridged prospectus.

### Capitalized terms used herein and not specifically defined herein shall have the meaning given to such terms in the Prospectus. BANKERS TO THE ISSUE, REFUND BANKER AND SPONSOR BANK: ICICI BANK LIMITED

Capital Market Division, 163, 5th Floor, HT Parekh Marg.

Blackbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020, Maharashtra, India

Contact No.: +91 022 68052182 | Fax: NA | Email: pocmg@icicibank.com | Website: www.icicibanklimited.com Contact Person: Mr. Varun Badai | SEBI: Registration No. INBI00000004

Place: Delhi

Date : August 21, 2025

SUGS Lloyd is proposing, subject to market condition and other considerations, a public issue of its Equity shares and has filed the prospectus with the Registrar of Companies, Delhi ("RoC"). The prospectus is available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), website of the Issuer Company (www.sugslloyds.com), the website of the Lead Manager to the Issue (www.3dcsl.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com). Investor should note that investment in equity shares involves high degree of risk. For details, investor should refer to and rely on the prospectus, including the section titled "Risk Factor" on Page No. 28 of the prospectus, which has been filed with RoC, before making any investment decision. The equity shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "securities Act) except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to,

the registration requirement of the Securities Act. The equity shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transaction in compliance with regulations under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occurs.

# DCM SHRIRAM LIMITED

CIN No.: L74899DL1989PLC034923 Regd. Office: 2<sup>18</sup> Floor (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi-110037 Tel.: 011-42100200 E-mail: shares@dcmshriram.com Website: www.dcmshriram.com

#### NOTICE TO SHAREHOLDERS 100 Days Campaign - Saksham Niveshak

ence to the ongoing Saksham Niveshak Campaign initiated by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), we request all shareholders to:- (1) update your KYC (Permanent Account Number, Specimen Signatures), Bank Mandates (Bank Name, Branch Name & address, Bank Account Number, IFSC Code) and Contact Information (postal address, email and telepho umbers): (2) verify your holdings and claim any unpaid dividends or shares that may have been transferred to IEPF. Timely action will help you safeguard your investments and entitlements. For more information, shareholders may visit the official website of IEPF at https://iepfa.gov.in. If you need assistance or have any queries regarding your shares or dividends, please contact the Company's Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") i.e. MCS Share Transfer Agent Ltd., 179-180, DSIDC Shed, 3° Floor Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020, Email nelpdeskdelhi@mcsregistrars.com or to the Company at 2<sup>rd</sup> Flooi West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi - 110037, Email shares@dcmshriram.com

For DCM Shriram Limited Date: 21" August 2025 Deepak Gupta Place: New Delhi



Interested parties may refer Bank's Website https://www.indianbank.in/lenders for datails

Interested parties may refer Bank's Website:

# 'IMPORTANT'

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

# **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the Certificate of Registration (CoR) issued by the Reserve Bank of India, bearing Registration No. B.01.00455 dated 8 th January 2003, in favour of Jain Finscap Private Limited (CIN: U65910GJ1995PTC026442), having its Registered Office at 604, 6 th Floor, Fortune Business Hub. Nr. Satvamev Elvsivm. Sola hmedabad - 380060 (Gujarat, India) has been lost/misplaced and is not traceab

despite diligent search and efforts.
If any person finds the said Certificate Registration, they are requested to return it immediately to the Company at its registered office address mentioned above.

The public is hereby warned against any misuse or misutilisation of the said Certificate of Registration by unscrupulous elements, as the same is the exclusive property of the Company. Any person misusing or attempting to misuse the said certificate shall be doing so at their own risk, and the Company shall not be responsible or liable in any manner whatsoever. By Jain Finscap Private Limited

# **BLS International Services Limited**

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, Tel. No.: 011-45795002, Email: compliance@blsinternational.net, Website: www.blsinternat CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF 415T ANNUAL GENERAL MEETING **BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED** 

CIN: L51909DL1983PLC016907

his corrigendum is regarding the Notice of 41" Annual General Meeting (AGM) of the BLS nternational Services Limited ('the Company') scheduled to be held on Tuesday, 16° leptember, 2025 at 03:00 PM through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual

With reference to pre-dispatched newspaper advertisement regarding the Notice of 41° Annual General Meeting (AGM) published on August 20, 2025 in Financial Express (English Language- All edition) and Jansatta (Hindi Language- Delhi edition), Members of the Company are requested to note that Book closure period in paragraph five ("5") of the said advertisement should be read it as "Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, September 10, 2025 to Tuesday, September 16, 2025 (both days inclusive)".

All other contents shall remain the same

This corrigendum shall be made available on the website of the Company at https://www.blsinternational.com/. For BLS International Services Limited

Company Secretary & Compliance Officer



# **ICRA** Limited

CIN: L74999DL1991PLC042749 Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Telephone No.: +91-11-23357940 Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com

# NOTICE TO SHAREHOLDERS

On behalf of the Board of Directors

For Sugs Lloyd Limited

Priti Shah

Managing Director

Sd/-

Notice is given to the shareholders of ICRA Limited (the "Company") in accordance with the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") letter dated July 16, 2025, regarding a 100-day campaigr "Saksham Niveshak" from July 28, 2025 to November 6, 2025. During this campaign, shareholders who have not claimed their dividend, updated their KYC and nomination details, or encounter issues related to unclaimed dividends and shares may contact the Company or its Registrar and Transfer Agent, M/s MUFG Intime India Private Limited ("RTA"), at the address provided below.

M/s ICRA Limited Building No. 8, 2<sup>nd</sup> Floor, Tower A. DLF Cyber City, Phase II, Gurugram - 122002 Phone: +91 124 4545300 Email: investors@icraindia.com

M/s MUFG Intime India Private Limited Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 49411000 Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Website: www.icra.in Website: www.in.mpms.mufg.com This campaign has been initiated to encourage shareholders to update their KYC, bank mandates, nominee and contact information, and claim any unpaid or unclaimed dividend, in order to prevent the transfer of shares and dividend amounts to the IEPFA. The shareholders are advised to act promptly to avoid the transfer of their nclaimed dividend and shares to the IEPFA

> For ICRA Limited Company Secretary & Compliance Officer

Date : August 22, 2025

Place : Gurugran ICSI Membership No.: FCS12878 ananar financial avarage same

Date: 21.08.2025